## BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office: 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur - 302 006, Ph.: 9214018877 CIN: L45201RJ1995PLC010646, Website: <a href="www.bflfin.com">www.bflfin.com</a>, E-mail: <a href="mailto:bfldevelopers@gmail.com">bfldevelopers@gmail.com</a>

Ref. No.: BFL/2025-26/39 Date: August 14, 2025

To, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai-400001 (Maharashtra)

Scrip Code: 539662

Sub.: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Newspaper Notice of the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 09, 2025 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") and e-voting information published in newspapers "Business Remedies" (Daily newspaper of the State) and "Financial Express" (National daily newspaper) on August 14, 2025.

The same has been made available on the Company website at <a href="https://bflfin.com/other-publications/">https://bflfin.com/other-publications/</a>.

You are requested to take the above on records.

Thanking you,

Yours Sincerely

FOR BEL ASSET FINVEST LIMITED

NEHA MANGNANI

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

**MEMBERSHIP NUMBER: A72679** 

Encl: A/a

## भाव-बाजार। कमोडिटी/विविध

# द्वारा आगुचा एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन



न केवल

एसआर

रही है.

रायों को

आगुचा

क्रम में

टेड द्वारा

के गाँवों

अधिक

चा और

विकास

न किया

**एसआर** 

वं अन्य

नाओं के

प्रवेश

में 500

पोदकर

साइंस

रने की

नवेश से

क प्रत्यक्ष ां उत्पन्न

त्य की

मिलेगी। 12029 लर की

रकार के न्प है।

पानना है

मित नहीं

सिकता.

वसर से

मोहित

उद्देश्य स्थानीय समदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उद्घाटन समारोह में आसिंद विधायक जब्बर सिंह सांखला. रामपरा आगचा माइन क्लस्टर आईबीयू सीईओ राम मुरारी, सरपंच आगुचा ज्योति नागर, सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र नागर, सीबीईओ हरडा ब्लॉक आशालता, डिप्टी हेड सीएसआर अभय गौतम, हेड एडमिन एवं एक्सटर्नल रिलेशंस अभिमन्य राणावत. सिक्योरिटी हेड अजय शर्मा आगचा माइन मजदूर संघ महामंत्री एमके सोनी एवं हैमराज चोधरी उपस्थित थे। उद्घाटन की

गई परियोजनाओं में मुलजी का खेडा में सीएसआर समाधान परियोजना के तहत एक पश् इकाई, नवनिर्मित सीएसआर बनियादी इंफ्रास्ट्रकर के कार्यों के तहत विकसित आगचा चोराहा जिसमें बस स्टैंड सीसी रोड शामिल हैं। रामपुरा कम्युनिटी सेंटर किचन शेड, आगचा बालिका विद्यालय में तीन नए कक्षा-कक्षों का निर्माण. हिन्दस्तान जिंक के आगुचा माइन मजदूर संघ श्रम कल्याण कोष के अंतर्गत आगुचा में एक सामदायिक केंद्र स्थापित किया गया है।

भेरूखेडा-1 स्कल में दो कक्षा-कक्ष, एक शोचालय, एक बालक बालिका शोचालय और एक टीन प्रार्थना शेड बनाया गया है। इसके अलावा, देवपरा गाँव में 630 मीटर लंबी सीसी सड़क और उसके प्राथमिक विद्यालय में एक नया कक्षा-कक्ष बनाया गया

है. और कोटडी गाँव में 2.5 किलोमीटर लंबी बजरी वाली सड़क एवं कोटडी पलिया का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर राम मुरारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिन्दुस्तान जिंक सतत विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सधार के लिए प्रतिबद्ध है और ये नव-उद्घाटित परियोजनाएँ उस प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। प्रत्येक पहल के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बनियादी ढाँचे. आजीविका और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को एकीकृत तरीके से संबोधित करते हुए हिन्दुस्तान जिंक समग्र सामुदायिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंपनी का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण करना है जो इसके व्यवसाय के साथ-साथ विकसित हों, तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए समावेशी और सस्टेनेबल प्रगति सनिश्चित करें। इंफीबीम एवेन्यज लिमिटेड के क्याएफवाई26 के परिणाम जारी

भारत की पहली सुचीबद्ध एआई-संचालित तकनीक और फिनटेक कंपनी, इंफीबीम एवेन्युज लिमिटेड ने 30 जन, को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है।

बिजनेस रेमेडीज/गांधीनगर।

समेकित वित्तीय प्रदर्शन समीक्षा: वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में. एमएसएमई की बढ़ती पहुँच, एआई के माध्यम से बेहतर मुल्य निर्धारण नियंत्रण और एडवांस्ड एआई-सक्षम स्विधाओं की शुरुआत ने प्रदर्शन को मजबूत किया। इस वजह से बेहतर व्यापारी अनुभव और मज़बूत मुद्रीकरण हुआ। कंपनी ने वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में 12,802 मिलियन रुपये का मजबत समेकित सकल राजस्व और 855 मिलियन रुपये का समायोजित कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में सकल राजस्व में 72 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

जौ प्रसंस्करण उत्पादन मत्य १ अरब २० करोड युआन से अधिक

रेमेडीज/ बिजनेस बीजिंग/ आईएएनएस। शीत्सांग के पहले हाइलैंड जौ उद्योग विकास सम्मेलन से मिली खबर के अनुसार, 2024 तक, शीत्सांग का उच्चभमि जौ रोपण क्षेत्र लगभग 1 लाख 53 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया और इसका उत्पादन 8 लाख 88 हजार टन तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय कुल उत्पादन का क्रमशः 47 और 64 प्रतिशत था।

राजस्थान सरकार कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाती कलां, मौजमाबाद जयपुर (२१८८५३)

क्रमांकः- राउमदिगंगातीकलां / नीलमी / 2025-26/67

विवांक-06/08/2025

नीलामी सूचना

कार्यातय हजा के भण्यार में पढे बाकार समाम जिलाम मूच र 66590 (पैठा हजार योप से बावे) है कि तार्वजीमक मीतामी विसंबंध 28(06/2025 को प्रातः 8:00 को बावोंचार जाववीय उच्च माराजीक विधायय मंत्राची करने जीजनावाद अवसूर (218653) में की जावेगी। शिवमानुतार परोसर रात्रीत 1500 रं (एक हजार पांच से) सक्य जान करवाकर जीरतदी पंजीवृत बोरीब्हार सिनामी में मान से करेगे। बीराजी बोर्ची रावित रावित्त पंजीव प्रति बोर्ची पात्री बार्ची को क्षारण के किस के के के अपनर जाव राज्य विस्तारण में सकत कर कार्यों से ती प्रति काराजानुतार वोद्यार के विश्व सिनामी के दिन से तीन सिनाम के अन्यर जाव करा प्रतास की प्रति प्रस्तुत कर सक्यार तमान अपने हर्ज कार्ये पर उठान होगा। बीराजी की अपर वहाँ बीराजी प्रति मंत्रा

रा.उ.मा.वि. गंगती कलां.

DIPR/C/11263/2025

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877 E-mail: bildevelopers@gmail.com, Website : www.biffin.com, CIN: L45201RJ1995PLC010646

## 30वीं वार्षिक साधारण सभा और सदस्यों हेतु रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एरद्वारा सृषित किया जाता है कि वीएफएल एसंट फिननेस्ट लिम्प्टेड ("कंपसी") के सदस्यों को 30वीं वार्षिक आम वैडक ("एबीएम") मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को अपग्रह 03:00 वर्ष (आईएसटी) वीडियो किमोसिल (बीसी) / अन्य आडियों विकुत्रल माध्यम्प (ओएबीएम) के पाध्यम से आयोजित की वार्णात, ताकि पंगलकार, 29 जुलाई, 2025 की एबीएम को मूचना ये बताए मूख्यसायों का सोलान कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभृति अधिनियम, 2013 ("अधिमिषम") के लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विषयों, भारतीय प्रतिभृति अधि विनयस वार्ष हो सूचीव्यद्धता प्रतिभूत अधि क्रवित्तम वार्ष हो सूचीव्यद्धता राधिव्यत्त राधिव्यत्त प्रतिभूत क्रवित्तम क्षेत्र हो १८०६ के सामान्य परियन संख्या 09:7024 और क्रॉपरेट प्रामलों के भंजात्व हारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए एक्टले कं परिपन्नों के अनुसार किया जा सके, (सम्मृत्तिक रूपस में 'पूमतीय एक्टिन' के क्रय में संबंधित 3) और प्रतिभाग प्रतिभूति और वित्तमय बोर्ड ('मेंक्कि') इता सामी किए गए विधिन्न परिपन्नों 03 अक्टूबर, 2024 के परिपन्न संख्या SEBIIHOICFDICED-PoD-2IPICIBI 2024/133 (सम्मृत्तिक कप से 'संबंध परिपन्न' के रूप में संवंध प्रतिभाव के अनुसार, सदस्यों की एक ही स्वाच पर स्वीतिक अपनिवर्तिक वित्ता कोई पी का कार्यवादी नहीं की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक अपन बैठक ( एक्टीए) की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रिनिक प्रतिभाव की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रिनिक प्रतिभाव की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रिनिक अपनी ('इपाचित्रति') हो अन्तिम ते अवस्था ('बी') के पार पंजीव्यति हो सहस्यों को पंजीप्त की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रिनिक प्रतिभाव की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रिनिक प्रतिक प्रतिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रिन से सामान्य के अनुसार समापन कर रिव्या गार्ब है।

दिया गया है। इसके अंतिरिक्त लिस्टिंग विनिवसमें के विनियम 36(1)( बी) के अनुसार, तिन सहस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीवकृत नहीं कराया है, उन्हें आरटीए/कंपनी, हिस्मीकिटरी के रिक्तीई में पंजीवकृत पत्रे पर उस चेवसाइट का सर्पेक बेंब-लिंक पुन्त एक पत्र भी भंजा गया है वहीं संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट से मंबीयति विवारण उनलब्धें, कंपनी (प्रवास और प्रशासन) नियम, 2014 (संगीतिम) के नियम 20 और भारतीय कंपनी सर्चिव संस्थान

कथना (प्रधान आर प्रशानन ) गयनम्, आर संशाचन के जानकर देश करान स्वाचन कथना सावच स्वाचन हुए। इहुगा जारि तिर्देश विशिचयन और सामान्य बैठको गर सचिवीय मानव ("स्वस्त्त-2") के विशिचयन ४४ के साथ पठित अर्थिनत्यम की थारा १०८ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सेट्ल डिप्पॉन्टरो सर्विसंज (इंडिज) विशिचेटर ("सीडीस्स्त्रपूर्ण") के साध्यम से अपने सहत्यों को एलीएम के दौरान रिपोर्ट डे-बॉटिंग सुविवा और ई-बॉटिंग सुविवास प्रदान कर रोई होता के उन्हार स्वीप्त में प्रसावित प्रस्ताव एं इन्हार्न्हां कक स्व से बॉट टेने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बॉटिंग के पाध्यम से कारांवार किया जा

स्थान : जयपुर दिनांक : अगस्त 13, 2025

सक। इस संबंध में, सदस्यों को एतारवारा सृष्यित किया जाता है कि: (क) रिसोर्ट इं-बोरिंग की अवधि शुक्रतार, 5 सिलंबर, 2025 को ग्रांत : 9:00 बर्ब ( भारतीय मानक समय ) से प्रारंभ डोकर सोमवार, 8 सिलंबर, 2025 को सार्थ 5:00 बर्ब ( भारतीय मानक समय ) पर समाप्त होंगी। सोमवार, 8 सिलंबर, 2025 को सार्थ 5:00 बर्ब ( भारतीय सानक समय ) को बाद रिसोर्ट इं-बोरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद सीबीयसप्त हारा इसे निष्कृत वह दिया जाएगा। एक बार सस्तर ब्रह्म हारा प्रसावा पर मनदान कर दिया जोते बाद सारस्य को बाद में बहुत के का अनुमति हारों होंगी।

महीं होंगी।
कंबल बड़ी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अवांत मंगलवार, 2 सितंबर, 2025 को सदस्यों के राजियदर या डियॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभावीं म्वामियों के तिज्ञादर में दब्दे हैं, रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आय बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का इकतर होगा। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सिन्दुर गुक्रिया, निर्देश लांगिक आय बैठक की सुनना में दिए गए हैं।
कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक अमर बैठक की सुनना भेजे जाने के बाद क्योंने के रोयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिशि अवांत मंगलवार, 2 सितंबर, 2025 कक रोयर प्राप्त करता है और

कपना का सदस्य चनाह का जा कट-जाताव क्याता नगरना 2. संस्थान (उन्हें के करा स्वार संस्थान) करना है। उस करना है। इस करना है। इस क्षेत्र के अपने करना है। इस किया करना है। विज्ञान करना है। किया करना है।

होंगे।
(क) जिन सदस्यों ने जार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी
वीसी/आंप्रवीएम के पाध्यम से चार्षिक आम बैठक में ज्यितक है। सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट
देने का अधिकार नहीं होगा।
(ख) विसीय वर्ष 2024-25 को लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की
वेबसाइट www.blflin.com, स्टॉक एक्सचेंज चानी जीएसई लिसिटेड की वेबसाइट
www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध

(छ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सं मतदान सं संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, सदस्य इश्वद्धान्त्रक भाज्यम् स मनदानं स सबाजन त्रास्त्रमा अनुभाग क्रुअन्तर्गत्रकायनं क्रां त्रास्त्र, सहस्य अर्थान्य अभ्यान्य क्रुअन्तर्गत्रकायनं क्रांचित्रकायनं क्रांचित्रकायनं क्रांचित्रकायनं क्रांचित्रकायनं क्रांचित्रकायनं क्रांचित्रकायनं व्याप्तिकायनं विष्याप्तिकायनं विषयनं व

वास्ते- बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड हस्ता./-महेन्द्र कुमार बैद प्रबन्ध निदेशक (DIN: 00009828)

अदाणी फाउंडेशन ने सिंदरी में महिलाओं को पेपर प्लेट बनाने के उद्यम के माध्यम से परिवार का सहयोग करने के लिए सञ्चक्त बनाया

## बिजनेस रेमेडीज/झारखंड

विविध अदाणी पोर्टफोलियो की सीमेंट और बिल्डिंग मैटेरियल्स कंपनी, एसीसी. अदाणी फाउंडेशन के साथ मिलकर समलापुर जैसे गांवों में ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर आर्थिक समावेश को बढ़ावा दे रही है।

स्वयं सहायता समूहों को आय-सूजन के संसाधनों के साथ सहायता करके, यह पहल गहिणियों को घर की आय में

निर्णय लेने में भागीदार बनने के लिए सशक्त बना रही है। ऐसा ही एक उदाहरण मंजू कुमारी का है, जो अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की प्रबल इच्छा रखती हैं। 2024 में, उनके स्वय सहायता समूह 'मां जगदंब एएसएम' को फाउंडेशन के सहयोग से एक पेपर प्लेट बनाने की मशीन मिली। हालाँकि, वह उद्यमिता में नई थीं, लेकिन मंज् ने जल्दी ही मशीन चलाना और अन्य सदस्यों के साथ उत्पादन का प्रबंधन करना सीख लिया।

## KG PETROCHEM LIMITED

CIN: L24117EU1960PLC001999
Regd. Office: C-171, Read No. 91, VIG Area, Jaipus 202013, Rajasthan
rorste Office, 6th Floor, No. 6tf. Mercher Building, Americapil Marq, Hansumen Nagar, Vaichali Nagar
302021 Roj, E-enall: manish@bhavik.biz; Website: www.kgoetrochem.com; Contact No. 993340 जून 30, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम (१. १७०० वर्ग) वर्ग केवर व्याप को वर्ग

西市市	विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	
		39.06.2025 अलंखायरीकित		30.06.2024 अनेकामरीक्रित		
1	कुल परिचालन आग्र (अन्य आय सहित)	9,568,00	12,455,81	6,916,06	37,942,48	
2	ज्यपि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के पहले)	300.66	26.41	205 80	71234	
3	खर्वाध के लिए कर के पहले बुद्ध लाम/ (हानि) (असाधारण और/ या असामान्य वस्तुओं के बाद)	300.66	28.41	205.80	712.34	
	अवधि के लिए खुद लाम/ (हानि) (कर, असाधारण और/था असामान्य वस्तुओं के बाद)	216.19	73,87	195.01	550.82	
5	अवधि के लिए कुल आय	216.19	82.25	195.01	559.20	
6	समता अंश पूंजी	522.10	522:10	522.10	522.10	
_	Chariel Complementary Chairf with advances t	0.00	0.00	0.00	42 642 45	

## **U**0 यूनिक ऑरगेनिक्स लिमिटेड

सी आई एन L24119RJ1993PLC007148 रजि. ऑफिस: ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-22 (राज.) दूरभाष: 91-141-2770315 / 2770509 वेबसाईट : www.uniqueorganics.com ई-मेल : compliance@u

30.06.2025 को समाप्त प्रथम तिमाही के संक्षिप्त स्टेण्डअलोन अनांकेक्षित वित्तीय परिणाम 🤲

₹.	विवरण	(30.06.2025) जनांकेक्षित	संबंधित तिमाही (30.06.2024) अनाकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	3,299.22	3,119.88
2.	अवधि के लिए निवल लाग / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं / अववा असावारण मदों से पूर्व)	311.65	488.78
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाग / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं / अथवा असाबाराण मर्वा के परचात)	311.65	488.78
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाग/ (हानि) (कर विशिष्ट एवं/अध्यवा असाधारण मदों के पश्चात)	233.39	365.76
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय ।अवधि हेतु लाम / (हानि) (कर परचात) एवं अन्य समग्र आय (कर परचात) सम्मिलित	233.39	365.76
6.	समता अंश पूंजी	595.30	595.30
7.	आरक्षित निधियां (गत वर्ष के अवेश्वित तुलन प्त में प्रदर्शित पुनर्मूल्यांकन निधियों को छोड़कर)	2,710.62	1,656.30
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत परिचालना से)		
	मृतः	3.92	6,14
	अवगिश्रितः	3.92	8.14

नाट:: , राजपांका विश्वण संबा (सुवीबहाती दायाव और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनयस 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टीक एक्सपेक के साव टायर की गई जैमारिक त्यापिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक व्यवण है। विस्तृत प्रारूप में प्रेमारिक वितीय परिणाम स्टीक एक्सपेज की विसाईट (www.sbeindia.com) और कम्मी की वेशसाईट http:// uniqueorganics.com/investor/financial-reports/ पर उपस्था हैं।

क्ते यूनिक ऑरगेनिक्स लिगिटेड

ह./-ज्योति प्रकाश कनोडिया प्रवेध निर्देशक DIN: 00207554 स्थान : जयपुर दिनांक : 13.08.2024

## FINANCIAL EXPRESS

### **PUBLIC NOTICE**

[Walchandnagar Industries Limited]

Registered Office: [3 Walchand Terraces, Tardeo Road,

Mumbai - 400 034, Maharashtra, India.]
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the under mentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

Name of	Folio No.	No. of securities held	Face Value	Security Certificate No.	Distinctive Nos.	
Holder					From	То
Karamshi	W0002802	50	10	1332	176711	176760
Jethabhai		50	10	1366	178701	178750
Somaiya		20	10	7002808	176761	176780
re-entranet and		20	10	7002821	178751	178770
		35	10	7010145	2030112	2030146
		35	10	7010160	2031082	To 176760 178750 176780 178770
		1050	2	5461	15183951	1518500

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate(s).

Any person who has any claim in respect of the said share certificate[s] should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents: MUFG Intime India Private Limited 247 Park, C-101, 1 Floor, L. B. S. Marg, Vikhroli (W) Mumbai - 400083. TEL: 8108116767 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and The Company shall proceed to issue with the Duplicate Share Certificate[s].

Name[s] of the holder[s] /

Date: 13.08.2025 Legal Claimant: Samir Shantilal Somaiya

onmobile

**OnMobile Global Limited** 

Registered Office: OnMobile Global Limited, E City, Tower-1, 94/1C & 94/2, Veerasandra Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk, Electronic City Phase-1, Bangalore - 560 100 Corporate Identity Number (CIN): L64202KA2000PLC027860 Phone: + 91 80 40096000 Fax: + 91 80 40096009 E-mail: Investors@onmobile.com, Website: www.onmobile.com

## NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, Shareholders are hereby informed that a Special Window has been opened only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended, due to deficiency in the documents/process or other reasons. This re-lodgement window shall remain open for a period of six months i.e. from July 07, 2025 till January 06, 2026.

During this period, the shares that are re-lodged for transfer including those requests that are pending with the Company shall be processed and issued only in dematerialized form, subject to verification and approval of all documents by the Company and the Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ('RTA').

Shareholders are requested to send their transfer requests along with the required documents to the following address:

Kfin Technologies Limited

Place: Mumbai

Unit: OnMobile Global Limited

Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District,

Nanakramguda, Serilingampally Mandal,

Hyderabad - 500032, India

Tel. No.: +91 40 6716 2222; Toll Free No.: 1800 3094001

Email id: einward.ris@kfintech.com

For OnMobile Global Limited

Sd/-

Place : Jaipur

Date: August 13, 2025

Place : Bangalore P V Varaprasad
Date : August 14, 2025 Company Secretary

QSO QGO FINANCE LIMITED

GLITTEK GRANITES LIMITED. Honnappa Building, 2nd Floor, V V Extension, Behind MVM ITI College, Old Madras Road, Hoskote, Bangalore-562 114. www.glittek.com, E-mail: info@glittek.com CIN: L14102KA1990PLC023497

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 (Rs. in Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated)						
Si. No.	Particulars	For the Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Corresponding 3 Months ended in the Previous Year June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)		
1	Total Revenue from Operations (including other income)	72.05	107.97	3,329.91		
2	Net Profit for the period (before tax and Exceptional Items)	7.03	(305.84)	746.86		
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	7.03	(314.84)	746.86		
4	Net Profit for the period after tax (after Extraordinary Items)	5.28	(314.84)	685.86		
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax)	12.75	1.30	(28.35)		
6	Equity Share Capital (Face value of share: Rs.5/-)	259.59	259.59	259.59		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the	100000000				
	Balance Sheet of previous year)	(223.45)	(223.45)	(223.45)		
8	Earnings per share of Rs. 10/- each a) Basic b) Diluted	0.02	(1.21)	2.64		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results fied with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Bombay Stock exchange website www.bseindia.comand the Company's websitewww.glittek.com

Place: Bangalore. Date: 14.08.2025 By Order of the Board For Glittek Granites Ltd. Ashoke Agarwal, Chairman & Managing Director

### **BFL ASSET FINVEST LIMITED**

Regd. Office: 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 • Ph.: 9214018877 E-mail: bfldevelopers@gmail.com • Website: www.bflfin.com • ClN: L45201RJ1995PLC010646

#### NOTICE OF 30<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

NOTICE IS HEREBY given that 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of BFL Asset Finvest Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 09, 2025 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated Tuesday, July 29, 2025 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and as per General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and earlier circulars issued in this regards from time to time by Ministry of Corporate Affairs, (collectively referred to as "MCA Circulars"), and various circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

The electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent to all the members on **Wednesday August 13, 2025** whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispended in accordance with the aforementioned MCA Circulars and SEBI Circulars.

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations, for members who have not registered their email- address, a letter containing exact web-link of the website where details pertaining to the entire Annual report is hosted has also be sent at the address registered in the records of RTA/Company/ Depositories.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility during AGM to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means. In this regard, the Members are hereby further informed that:

(a) The remote e-voting period shall start at 09:00 A.M. (IST) on Friday, September 05, 2025 and shall end at 05:00 P.M. (IST) on Monday, September 08, 2025. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. (IST) on Monday, September 08, 2025. The same will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 02, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure / instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.

(c) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 02, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote evoting then existing user ID and password can be used for casting vote.

(d) Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

(e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

(f) The Notice of AGM and the Annual report for the financial year 2024-25 is available on the Company's website www.bflfin.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

(g) Any query(ies)/grievance(s) pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (1800 21 09911), CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai- 400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

> For BFL Asset Finvest Limited Sdl-Mahendra Kumar Baid Managing Director (DIN: 00009828)